

दूरभाष Phone : 27201181 (EPABX)
फैक्स Fax : 040-27200286
ई-मेल e-mail : nigst.hyd@surveyofindia.gov.in
वेबसाइट Website : www.nigst.surveyofindia.gov.in



अपर महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Additional Surveyor General
राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
National Institute for Geo-informatics
Science & Technology
उप्पल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500039.
Uppal, Hyderabad, Telangana – 500039.

ROUTINE ORDER NO. C- 11 / 37-G-9 / NIGST DATED 21st DECEMBER, 2025

वर्ष 2026 के दौरान अपर महासर्वेक्षक, राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यालय में निम्नलिखित छुट्टियाँ मनाई जाएंगी।

The following closed holidays will be observed in the office of National Institute for Geo-Informatics Science & Technology, Survey of India during the year 2026.

GAZETTED HOLIDAYS: 2026

S.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day
<u>1947 SAKA ERA</u>				
L	Pongal/ Makar Sankranti	January 14	Pausha 24	Wednesday
2	Republic Day	January 26	Magha 06	Monday
3	Ugadi	March 19	Phalguna 28	Thursday
4	Id-ul-Fitr	March 21	Phalguna 30	Saturday
<u>1948 SAKA ERA</u>				
5	Mahavir Jayanti	March 31	Chaitra 10	Tuesday
6	Good Friday	April 03	Chaitra 13	Friday
7	Budha Purnima	May 01	Vaisakha 11	Friday
8	Id-ul-Zuha (Bakrid)	May 27	Jyaishtha 06	Wednesday
9	Muharram	June 26	Ashadha 05	Friday
10	Independence Day	August 15	Sravana 24	Saturday
11	Milad-un-Nabi or Id-e- Milad (Birthday of Prophet Mohammad)	August 26	Bhadra 04	Wednesday
12	Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi	September 14	Bhadra 23	Monday
13	Mahatma Gandhi's Birthday	October 02	Asvina 10	Friday
14	Dussehra	October 20	Asvina 28	Tuesday
15	Diwali (Deepavali)	November 08	Kartika 17	Sunday
16	Guru Nanak's Birthday	November 24	Agrahayana 03	Tuesday
17	Christmas Day	December 25	Pausha 04	Friday

उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त वर्ष 2026 के लिए हर एक कर्मचारी/अधिकारी को निम्नलिखित वैकल्पिक अवकाश में से दो अवकाश लेने की अनुमति दी जाती है :

In addition to the above Gazetted holidays, each employee will also be permitted to avail himself / herself of any two holidays to be chosen out of the Restricted Holidays given below during the year 2026:

RESTRICTED HOLIDAYS FOR 2026

1947 SAKA ERA

S.No	Holiday	Date	Saka Date	Day
1	New Year's Day	January 01	Pausha 11	Thursday
2	Hazrat Ali's Birthday	January 03	Pausha 13	Saturday
3	Sri Panchami, Basant Panchami	January 23	Magha 03	Friday
4	Guru Ravi Das's Birthday	February 01	Magha 12	Sunday
5	Birthday of Swami Dayananda Saraswati	February 12	Magha 23	Thursday
6	Maha Shivratri	February 15	Magha 26	Sunday
7	Shiva Ji Jayanti	February 19	Magha 30	Thursday
8	Holika Dahan	March 03	Phalguna 12	Tuesday
9	Dol Yatra	March 03	Phalguna 12	Tuesday
10	Holi	March 04	Phalguna 13	Wednesday
11	Jamat-Ul-Vida	March 20	Phalguna 29	Friday

1948 SAKA ERA

12	Ram Navami	March 26	Chaitra 05	Thursday
13	Easter Sunday	April 05	Chaitra 15	Sunday
14	Meshadi (Tamil New Year's Day)	April 14	Chaitra 24	Tuesday
15	Vaisakhadi (Bengal)/ Bahag Bihu (Assam)	April 15	Chaitra 25	Wednesday
16	Birthday of Guru Rabindranath Tagore	May 09	Vaisakha 19	Saturday
17	Rath Yatra	July 16	Ashadha 25	Thursday
18	Parsi New Year's Day/Nauraj	August 15	Sravana 24	Saturday
19	Onam or Thiru Onam Day	August 26	Bhadra 04	Wednesday
20	Raksha Bandhan	August 28	Bhadra 06	Friday
21	Varalakshmi Vratam	August 28	Bhadra 06	Friday
22	Janmashtami (Vaishnva)	September 04	Bhadra 13	Friday
23	Bathukamma	October 11	Asvina 19	Sunday

24	Dussehra (Saptami)	October	18	Asvina	26	Sunday
25	Dussehra (Mahashtami)	October	19	Asvina	27	Monday
26	Dussehra (Mahanavmi)	October	20	Asvina	28	Tuesday
27	Maharishi Valmiki's Birthday	October	26	Kartika	04	Monday
28	Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)	October	29	Kartika	07	Thursday
29	Naraka Chaturdasi	November	08	Kartika	17	Sunday
30	Govardhan Puja	November	09	Kartika	18	Monday
31	Bhai Duj	November	11	Kartika	20	Wednesday
32	Pratihara Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja)	November	15	Kartika	24	Sunday
33	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	November	24	Agrahayana	03	Tuesday
34	Hazrat Ali's Birthday	December	23	Pausha	02	Wednesday
35	Christmas Eve	December	24	Pausha	03	Thursday

इन प्रतिबंधित अवकाशों को लेने के लिए पहले लिखित रूप में अनुमति लेना होगा और सामान्यतः उस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। इसका रिकार्ड रखा जायेगा तथा आकस्मिक अवकाश दर्ज किया जायेगा।

Permission to avail oneself of these restricted holidays should be applied for in writing in advance and will normally be granted by the superior officer competent to grant casual leave except when the presence of an individual employee is considered necessary in the exigencies of Govt. work. A record will be maintained in respect of the persons availing themselves of restricted holidays.

सभी अवकाशों में तत्काल कार्य निपटाने के लिये अवकाश व्यवस्था की जायेगी और इसके लिये छुट्टी रोस्टर रखा जायेगा। अवकाश के दिन भी कर्मचारी इयूटी के लिये तैनात किया जायेगा तथा उस छुट्टी के स्थान पर आगामी किसी दिन प्रतिपूरक अवकाश में ले सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिपूरक छुट्टी इयूटी करने के एक माह के अंदर लेने होगा, उसके उपरांत प्रतिपूरक अवकाश जमा नहीं होगा। इस प्रकार के प्रतिपूरक अवकाश राजपत्रित अधिकारियों को नहीं दिये जायेंगे।

Adequate arrangements will be made for dealing with urgent work on all holidays and a holiday roster will be maintained for this purpose. Persons so detailed on duty should, as soon as possible, be granted lieu leave on a subsequent working day to compensate for working on a holiday. This lieu leave should be taken as soon as convenient after the holiday in question (within a month) and should not be allowed to accumulate. Such compensatory leave will not be granted to Gazetted officers.



(G. VARUNA KUMAR)

ADDITIONAL SURVEYOR GENERAL
NIGST